



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082023-247825
CG-DL-E-03082023-247825

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3327]
No. 3327]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2023/श्रावण 12, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2023/SHRAVANA 12, 1945

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

का.आ. 3478(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तहसील अमलारेम (दावकी गांव), जिला जयंतिया हिल्स, मेघालय, भारत, पिन कोड-793109 में स्थित दावकी भूमि पत्तन को एकीकृत जॉच चौकी के रूप में निर्दिष्ट करती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 से लेकर बांग्लादेश से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर शून्य बिंदु तक 21.99 एकड़ माप की भूमि पर निम्नवत फैली हुई है, अर्थात्: —

- (क) उत्तर पूर्व : 25o 11'9" उत्तर एवं 92o 2'11" पूर्व;
(ख) उत्तर पश्चिम : 25o 11'7" उत्तर एवं 92o 1'56" पूर्व;
(ग) दक्षिण पूर्व : 25o 11'0" उत्तर एवं 92o 2'7" पूर्व;
(घ) दक्षिण पश्चिम : 25o 11'2" उत्तर एवं 92o 1'54" पूर्व।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/37/2015-बी.एम.-II/आईसीपी]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi the 31st July, 2023

S.O. 3478(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Central Government hereby specifies the Land Port at Dawki, located in Tehsil Amlarem (Dawki village), District West Jaintia Hills, Meghalaya, India, Pin Code – 793109 as Integrated Check Post measuring 21.99 acres of land along the National Highway number 206 up to the Zero point on the International Border with Bangladesh as follows, namely: —

- (a) North East : 25° 11'9"N and 92° 2'11" E;
- (b) North West : 25° 11'7"N and 92° 1'56" E;
- (c) South East : 25° 11'0"N and 92° 2'7" E;
- (d) South West : 25° 11'2"N and 92° 1'54" E.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2/37/2015-BM-II/ICP]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.